



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 619 राँची, शुक्रवार,

2 जुलाई, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

23 जुलाई, 2019

विषय - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अधीन विभागीय अधिसूचना-3905, दिनांक 11.12.2018 के माध्यम से आयोग के अधीन सृजित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के अतिरिक्त अन्य पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

ज्ञापांक - खा.प्र.-01/झा.रा.खा.आ./7-4/2017 - 2188,-- विभागीय अधिसूचना संख्या-3905, दिनांक 11.12.2018 के माध्यम से झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 32 के अधीन खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत "झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग" को सचिवालय का संलग्न कार्यालय के रूप में घोषित करते हुए आयोग के अधीन निम्नलिखित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन किया गया है:-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1	अवर सचिव	01
2	प्रशाखा पदाधिकारी	01
3	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	02
4	निजी सहायक	01
5	निम्नवर्गीय लिपिक	01
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01
7	चालक	01
8	आदेशपाल	02
9	रात्रि प्रहरी	01

2. आयोग के अधीन उपर्युक्त सृजित पदों के अतिरिक्त अन्य पदों के सृजन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सृजित पद के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अधीन निम्न पदों का सृजन किया जाता है -

I.

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1	आशुलिपिक	04
2	System Analyst/Programmer	01
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01
कुल		06

- II. System Analyst/Programmer के पद पर जैप आईटी से सेवा प्राप्त की जायेगी।
- III. कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों के विरुद्ध बाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त की जायेगी तथा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर मासिक, मानदेय दिया जायेगा।
- IV. बाह्य श्रोत (Outsourcing) के पद स्वीकृत नहीं समझे जायेंगे, अपितु बाह्य श्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम कर्मों की संख्या समझी जायेगी।
- V. सृजित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि., दिनांक 28.02.2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे एवं 7वाँ वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प सं. 217/वि. दिनांक 18.01.2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।
